

जीवनदायिनी गंगा के जीवन से परिचित करा रही प्रदर्शनी

:

Publish Date: Mon, 17 Dec 2018 08:32 PM (IST)



फोटो: 17 डेल 101, 102 जागरण

संवाददाता, नई दिल्ली : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आइजीएन

फोटो: 17 डेल 101, 102 जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आइजीएनसीए) में आयोजित गंगा उत्सव प्रदर्शनी में जीवनदायिनी गंगा की उत्पत्ति, इसकी ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक व मानव जीवन के लिए इसकी महत्ता बताई जा रही है। 22 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का आयोजन आइजीएनसीए व नमामि गंगे के सहयोग से द्रोपदी ड्रीम ट्रस्ट की तरफ से किया गया है।

प्रदर्शनी में पुरातत्व, वेद, गीता के साथ ही समय-समय पर विदेशी यात्रियों द्वारा गंगा पर वर्णन का भी उल्लेख किया गया है। इसमें हजारों वर्ष पुरानी ऐतिहासिक मूर्तियों की तस्वीरें लगाई गई हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से बताया गया है कि किस तरह गंगा किनारे भारत का विकास हुआ। तमाम प्राचीन शहर बसे। गंगा सभ्यता विकसित हुई। भागीरथ के प्रयासों से किस तरह गंगा को धरती पर लाया गया।

इस बारे में द्रोपदी ड्रीम ट्रस्ट की चेयरपर्सन नीरा मिश्रा ने कहा कि इस प्रदर्शनी को आकार देने में काफी मेहनत की गई है। ग्रंथों से लेकर अन्य किताबों, पुरातत्व साक्ष्य, मानचित्र समेत अन्य को एक

जगह पर लाया गया है, जिससे लोग गंगा की महत्ता को समझ सके । प्रदर्शनी में गीता का श्लोक है तो कालिदास के मेघदूत में गंगा के सुंदर वर्णन को भी दर्शाया गया है । यही नहीं, गंगा को लेकर कई विदेशी इतिहासकारों और दार्शनिकों के विचारों को भी प्रदर्शनी में जगह दी गई है ।

इस अवसर पर वित्त मंत्रालय में हिंदी सलाहकार सदस्य डॉ. रीता सिंह ने कहा कि इस प्रदर्शनी में गंगा के इतिहास से लेकर भविष्य की आहट भी है कि गंगा को बचाने का काम मात्र सरकारों का नहीं, यहां रहने वाले लोगों का भी है ।

Posted By: Jagran

LINK: <https://www.jagran.com/delhi/new-delhi-city-exhibition-18758193.html>.